

1. राजपत्रित अवकाश

(B) Gazetted holiday

Gurukul Varanasi

2. A person who is in charge of the objects or works of art in a museum.

(A) Curator

Gurukul Taranaagar

3. Opposite

DISHEVELLED

(C) tidy

Gurukul Taranaagar

4. धन की किसी निश्चित राशि को अजय एवं चिराग के मध्य 7 : 6 के अनुपात से विभाजित किया गया। यदि अजय के हिस्से का आधा चिराग के कुल हिस्से से 850रु. कम हो, तो कुल राशि क्या थी?

(B) 4420रु.

5. एक मोटरसाइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 परिक्रमण लगाता है। पहिए का व्यास (सेमी. में) है:

(D) 70 cm

Gurukul Taravati

6. माना $x = \{1,2\}$ और $y = \{1,2,3\}$ । x से y कितने भिन्न-भिन्न फलन है?

(D) 9

Gurukul Taravastava

7. अमन 40000रु. के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। 4 महीने के बाद, भानु 20000 के साथ अमन के साथ जुड़ जाता है। एक वर्ष के अंत में दोनों के लाभ का अनुपात ज्ञात करें।

(D) 3 : 1

8. दूर स्थित एक ऊँची इमारत का पूरा प्रतिबिम्ब निम्नलिखित का उपयोग करके हमेशा देखा जा सकता है:-

(A) उत्तल दर्पण

Gurukul Varanasi

9. जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है:-

(C) यह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है।

Gurukul Varanasi

10. एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 cm है।
उसकी क्षमता होगी:-

(C) – 2D

Gurukul Taravastu

11. तुम रात को कब सोते हो?

(C) When did you sleep at night?

Gurukul Taravastha

12. "Read it for yourself if you don't believe what I say", he told me.

(A) He suggested that I read it since I didn't believe what he said.

GurukulTalim.com

13. Rita didn't see me wave to her, She
..... in the other direction.

(A) was looking

Gurukul Taranaagari

14. “पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन” (एम पावर) को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है?

(B) आई एफ ए डी (इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट)

15. राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी?

(C) 2010

Gurukul Taravastha



ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया में
अपचायक है:-

(D) CO

Gurukul Varanasi

17. निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है?

(C) नये पदार्थ का निर्माण होता है।

Gurukul Taravati

18. किसी कार्य को पूरा करने हेतु एक दिन में 12 घंटे कार्य करके 15 व्यक्ति 10 दिनों का समय लेते हैं। उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 10 व्यक्तियों को एक दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए?


(D) 9

19. 216 मी. उंची चट्टान के शीर्ष से एक टॉवर के शीर्ष और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30^0 और 60^0 है। टावर की ऊँचाई ज्ञात करें।

(B) 144 मीटर

Gurukul Tarekare

20. नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



(D) 11

Gurukul Taravastava

21. $\cos 15^\circ \cdot \cot 20^\circ \cdot \cot 45^\circ \cdot \cot 70^\circ \cdot \cot 75^\circ$ का

मान है:

(D) 1

Gurukul Taravasth

22. निम्नलिखित में 'निरर्थक' का संधि विच्छेद होगा-

(D) निः + अर्थक

Gurukul Taravastu

23. निम्नलिखित में 'सु+उक्ति' की संधि होगी-

(C) सूक्ति

Gurukul Taravastu

24. निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को 'भारतीय ट्रेक और फील्ड की रानी' या 'गोल्डन गर्ल' के नाम से जाना जाता है?

(B) पी. टी. उषा

Gurukul Taravastu

25. 'नमस्ते' योजना निम्नलिखित समूहों में से
किन कर्मियों से संबंधित है?

(B) स्वच्छता कार्मिक

Gurukul Taravastu

26. 'विश्व दृष्टि दिवस, 2023' की थीम (विषय) क्या थी?

(B) कार्य करते समय अपने नेत्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें (लव योर आईज एट वर्क)

Gurukul Varanasi

27. एक्सेल में एक वैलिड फार्मूला किस से शुरू होता है?

(D) =

Gurukul Taravastava

28. पावर पाइंट प्रस्तुतीकरण में एक डिजाइन जो लेआउट को नियंत्रित और स्लाइडों के लिए फोरमेंटिंग करता है, को कहते हैं:-

(D) टेम्प्लेट्स

Gurukul Taravastu

29. निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस
नहीं है?

(B) प्रोजेक्टर

Gurukul Varanasi

30. नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोष के क्रम में लगाएं और दिए गए विकल्पों में से सही क्रम का चयन करें।

- I. MABELA
- II. MABUSE
- III. MABLE
- IV. MABEPEARL

नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए:

(A) I, IV, III, II

31. पांच छात्रों ने छात्रवृत्ति परीक्षा में हिस्सा लिया। सुमन को प्रीती से अधिक अंक मिले। कोमल को सुनीता से कम अंक प्राप्त हुए लेकिन वे सुमन के अंकों से अधिक रहे। मानसी को प्रीती एवं सुमन द्वारा प्राप्त अंकों के मध्य में अंक मिले, परीक्षा में सबसे कम अंक किसे प्राप्त हुए?

(A) प्रीती

32. आठ व्यक्ति L, M, N, P, Q, R, S एवं T एक गोलाकार मेज के चारों ओर सम्मेलन में केन्द्र की ओर मुख करके बैठे हैं।

I. R, L एवं S के बीच में बैठा है।

II. S, Q के बगल में T के दाहिनी तरफ तीसरे नंबर पर बैठा है।

III. Q, T के दाहिनी तरफ दूसरे नंबर पर बैठा है।

IV. M, R के बायीं तरफ तीसरे नंबर पर बैठा है।

तब M के बगल में कौन दाहिने ओर बैठा है।

(D) Q

33. जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था?

(A) मांड

Gurukul Varanashwar

34. राजस्थानी गद्य और पद्य की विधाओं में वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति एवं राजवंश की उपलब्धियों एवं घटनाओं पर प्रकाश डालती हैं, कहलाती है। (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने:)

(D) वचनिका

35. गीदड नृत्य संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने:)

(B) शेखावाटी

Gurukul Taravadi

36. The full form of DO letter in administrative or official communication is

(C) Demi official

Gurukul Taranaagari

37. He succeeded in life his
physical disabilities.

(B) in spite of

Gurukul Taranaagar

38. For once all the committee members agree one another.

(A) With

Gurukul Taranaagat

39. निम्नलिखित में से कौन निर्गुण उपासना का अनुयायी था? (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने:)

(A) दादू दयाल

Gurukul Varanasi

40. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:

सूची-I (मेला)

सूची-II (स्थान)

(A) a-III, b-I, c-IV, d-II

Gurukul Taravati

41. 2011 की जनगणना के अनुसार, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है?

(C) जालौर

Gurukul Tarun Vedya

42. कथन - I : काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है।

कथन - II : काली मिट्टी में नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में होता है परन्तु कैल्शियम की कमी होती है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने:

(A) कथन I सत्य है किन्तु कथन II असत्य है।

43. आइबीएम प्रणाली/360 निम्न में से किसका उदाहरण है?

(A) थर्ड जनेरेशन कंप्यूटर

Gurukul Taravastu

44. प्रोसेसर की निम्नलिखित में से कौन-सी इकाई
कम्प्यूटर के सभी हिस्सों की निगरानी करती है
और उन्हें उचित निर्देश देती है?

(D) कंट्रोल यूनिट

Gurukul Varanasi

45. रैम के संबध में निम्नलिखित में से कौन सही है?

(D) वॉलैटाइल, टैम्परेरी

Gurukul Varanasi

46. चित्रशाला कला-वीथी निम्नलिखित में से
किस स्थान में स्थित है?

(A) बूंदी

Gurukul Taravastu

47. निम्नलिखित में से सिंधु नदी की सबसे बड़ी
सहायक नदी कौन सी है?

(D) चेनाब

Gurukul Taravastu

48. निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित है?

(A) शिवालिक

Gurukul Taravastu

49. निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी/सेकण्ड जनरेशन का कम्प्यूटर है?

(A) IBM 7030

Gurukul Varanasi

50. निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य बना?

(D) राजस्थान

Gyanprakash Varma

51. वर्ष 2024-25 राजस्थान राज्य का बजट
किसने प्रस्तुत किया?

(B) दिव्या कुमारी

Gurukul Varanasi

52. 'अयोध्या राम मंदिर' के निर्माण में मुख्य वास्तुकार कौन हैं? (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने:)

(A) चन्द्रकांत सोमपुरा

Gyanprakash Varanasi

53. 2024 लोक सभा चुनाव के दौरान, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे?

(C) राजीव कुमार

Gurukul Taravastava

54. कौन सी सभ्यता धूलकोट या ताम्रवती नगरी
के नाम से प्रसिद्ध है? (निम्न में से सबसे उपयुक्त
विकल्प चुने:)

(C) आहड़

Gurukul Taravati

55. कालीबंग सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करें।

(B) कालीबंग में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला।

Gurukul Tarvan Prave

56. अनौकार्थक शब्द 'अक्षर' का एक अर्थ है-

(C) वर्ण

Gurukul Taravastu

57. शब्द युग्म 'अब्ज-अब्द' के लिए संगत अर्थ होगा-

(A) कमल-बादल

Gurukul Varanasi

58. 'उसने कुछ नहीं खाया' इसमें 'कुछ' कौन-सा
सर्वनाम है?

(B) अनिश्चयवाचक

GyanGyaan.com

59. पंचायती राज स्थापित करने वाला
पहला राज्य था?

(D) राजस्थान

Gurukul Varanasi

60. भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस निर्देशक सिद्धांत के अनुसार राज्य को ग्राम पंचायत का संगठन करने और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में बनाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करना है?

(A) अनुच्छेद 40

61. एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट्स के परिवचालन, कंप्यूटर गेम के खेलों एवं फ्लाइट में प्रशिक्षण अनुरूपकों के उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है कहलाता है:-

(D) जॉयस्टिक

62. किस रिफरेंसिंग में, फार्मूला कॉपी करते समय
सेल रिफरेंस नहीं बदलता?

(D) एबसोलुट रिफरेंसिंग

Gurukul Taravastu

63. निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की लघुतम
डाटा यूनिट है?

(B) निबल

Gurukul Varanasi

64. खेतड़ी बांसियाल संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से स्थान पर अवस्थित है?

(C) झुंझुनूं

Gurukul Varanasi

65. राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन-सी है?

(B) चम्बल

Gurukul Taravastu

66. The convict's ingenuous explanation brought tears neveryone's eye.

(A) Naive

Gurukul Taranaagari

67. Similar meaning

PROSCRIBE

(C) Prohibit


Gurukul Taranaagar

68. निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है?

(D) विटामिन A

Gurukul Varanasi

69. नीचे दिए गए यौगिक का IUPAC नाम है:



(A) 2-मेथिन, 1-प्रोपीन

70. सबसे अधिक स्थाई 'फुलरीन' है-

(A) C_{60}

Gurukul Varanasi

71. कार्बन का कौन सा 'अपरूप' विद्युत का सुचालक है?

(C) ग्रेफाइट

Gurukul Varanasi

72. राजस्थान के कृषि विकास में सबसे मुख्य बाधा क्या है?

(B) वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता

Gurukul Taravati

73. भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष मुद्रा
के विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी?

(C) 2016

Gurukul Taravastu

74. राजस्थान में भारतीय हथकरघा (हैन्डलूम)
प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थित है?

(A) जोधपुर

Gurukul Taravastu

75. दो प्रत्याशियों के मध्य चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मतदान दिया, जिसमें से 4% मत अवैध पाए गए। एक प्रत्याशी को 9261 मत प्राप्त हुए जो कुल वैध मत का 75% है। उस चुनाव के कुल नामांकित मतदाताओं की संख्या का पता लगाएं।

(C) 17,150

76. साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 2286 तथा 4 वर्षों में 2448 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है?

(D) 9%

Gurukul Taravati

77. निम्न में से किस समिति ने भारतीय संविधान में आठ मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था?

(D) स्वर्ण सिंह समिति

Gurukul Tutorials

78. संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? (निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने:)

(A) एस एन मुखर्जी

Gurukul Varanasi

79. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:

सूची-I (अधिकार)

सूची-II (सम्बन्धित है)

(B) a-III, b-I, c-IV, d-II

Gurukul Taravati

80. Scientists are aiming to create an unbiased algorithm-

(D) To bridge the gaps and remove social prejudices.

Gurukul Taralagar

81. A set of rules that must be followed when solving a particular problem is

.....

(B) Algorithm

Gurukul Taranaagari

82. Match List-I with List-II

List-I (Words)

List-II (Meanings)

(D) a-IV, b-III, c-II, d-I

Gurukul Taranagar

83. Match List-I with List-II

List-I (Fields)

List-II (Application of AI)

(C) a-III, b-IV, c-II, d-I

Gurukul Taranagar

84. Identify the drawback of using AI extensively according to the passage:-

(D) Biasness against certain sections of people due to lack of information.

Gurukul Tarangini

85. 'वेदना' शब्द में युक्त प्रत्यय है-

(D) ना

Gurukul Varanasi

86. निम्नलिखित में 'अग्नि' के पर्यायवाची हैं-

- a. धूमकेतु
- b. अभ्र
- c. वासव
- d. कृशानु
- e. पावक

निचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उतर का चयन कीजिए:

(B) केवल a, d और e

87. निम्नलिखित में से 'विज्ञ' का विपरीतार्थक शब्द है-

(C) अज्ञ

Gurukul Taravastu

88. निम्नलिखित में से 'हरि' शब्द का प्रयोग
किसके अर्थ में नहीं होता-

(D) समुद्र

GyanGanga.com

89. अशोक उत्तर की तरफ 4 मीटर चलता है। पुनः वह दाहिनी ओर मुड़कर 12 मीटर तक चलता है और इसके बाद वह बायीं ओर मुड़ता है और 12 मीटर की दूरी तक चलता है। अशोक की प्रारंभिक बिंदु से अंत तक की निकटतम दूरी का पता लगाए:

(B) 20 मीटर

90. नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा?

aabc__ bca _ b _ a _ bc

(B) aa a c a

Gurukul Taravastha

91. अह्वगंधा पौध के किस भाग को दवाईयां बनाने के लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता है?

(D) जड़

Gurukul Taravastu

92. निम्नलिखित में से कौन रूधिर-वर्ग वंशागति का अनुप्रयोग नहीं है- (सबसे उचित विकल्प का चयन करें)

(B) HIV-I और HIV-II का संक्रमण का उपचार

93. वे अनुक्रमण जो उस मृदा या क्षेत्रों में पाये जाते हैं जहां हाल ही में अपने समुदाय को खोया है, इससे संदर्भित होते हैं-

(B) प्राकक्रमक

Gurukul Varanasi

94. वंशावली विश्लेषण में ये देखा गया है कि
केवल लड़के हीमोफीलिया रोग से पीड़ित होते हैं,
क्योंकि यह एक-

(D) लिंग संहलग्न प्रभावी विकार है

Gurukul Tarangshiksha

95. डाउन सिन्ड्रोम की एकाधिसूत्रता के कारण होता है।

(D) गुणसूत्री 21

Gurukul Taravastu

96. निम्नलिखित में से कौन सा रेशा उत्पादक
पादप नहीं हैं?

(A) खेजड़ी

Gurukul Varanasi

97. निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?

(A) बिजल चमकने/गिरने के दौरान, वायु में निर्मित होने वाले कम तापमान और दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तित कर देते हैं।

98. वर्ष 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है?

(C) दूसरा

Gurukul Taravastha

99. यदि PHYSICS को किसी कोडित भाषा में
KSBHRXH कोड किया जाता है तो उस कोड
भाषा में BIOLOGY को कैसे लिखा जाएगा?

(D) YRLOLTB

Gurukul Varanasi

100. $P + Q$ का तात्पर्य है कि P, Q का भाई है

$P \times Q$ का तात्पर्य है कि P, Q की माता है

$P - Q$ का तात्पर्य है कि P, Q का पुत्र है

$P \div Q$ का तात्पर्य है कि P, Q का पिता है

निम्नलिखित में से कौन यह संकेत देता है कि $A,$

U का भतीजा है?

(A) $A - N - K \times H \div U$

101. राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात् मेवाड़ का शासक कौन बना? (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने:)

(C) राणा विक्रमादित्य

Gurukul Varanasi

102. केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है?

(D) भरतपुर

Gurukul Taravastava

103. आजादी के समय आज के राजस्थान में कितनी रियासतें थी? (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने:)

(A) 19

Gurukul Varanasi

104. छठे एशियन ट्रेम्पोलीन जिम्नस्टिक्स
चैम्पियनशिप में निम्न में से किसने रजत पदक
(Silver Medal) जीता था?

(A) सृष्टि खंडागले

Gurukul Varanasi

105. भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली अंडरवाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस शहर में किया गया था?

(A) कोलकाता

Gurukul Taravastha

106. 'राष्ट्रीय विज्ञान दिवस-2024' का विषय/थीम क्या है?

(B) विकसित भारत के लिए देशी प्रौद्योगिकी/तकनीकें (इंडिजिनियस टेक्नोलोजीज फॉर विकसित भारत)

107. निम्नलिखित में से नञ् तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है-

(C) अधर्म

Gurukul Varanasi

108. 'दत्तचित्त' में कौन सा समास है?

(D) तत्पुरुष


Gurukul Varanasi

109. 'प्रत्युपकार' शब्द में निहित उपसर्ग है-

(D) प्रति

Gurukul Taravastu

110. दो एक समान बल्ब L_1 एवं L_2 एक प्रत्यावर्ती परिपथ में चित्रानुसार जोड़े जाते हैं, तब-



(A) L_2 तेज प्रकाश देता है L_1 से

111. पहला शैक्षणिक उपग्रह ISRO द्वारा ...
..... वर्ष में छोड़ा गया था।

(D) EDUSAT, 2004

Gurukul Taravastava

112. सालान वन के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन करें।

(B) टीक विशेष रूप से सिर्फ सालार वनों में प्रचुर मात्रा पाये जाने वाला वर्ष है।

Gurukul Varanasi


113. निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊँचा शिखर कौन सा है?

(D) गुरुशिखर

Gurukul Varanasi

114. उतर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृतियों द्वारा प्रस्थापित श्रेणी क्रम में लगायी जा सके।

(A)



Gurukul Varanasi

115. गणितीय चिन्हों को कुछ अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है, जैसे नीचे दिखाया गया है।

+	-	×	÷	=	>	<
B	G	E	C	D	A	F

अब दिए गए विकल्पों में से सही अभिव्यक्ति का चयन करें:

(A) $18C - 3G = 6B + 8B - 4D - 12$

116. एक गोलाकार पार्क जिसकी परिधि $\frac{4840}{7}$ मी. है, उसके चारों ओर (पार्क के बाहर) 10 मी. चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल (मी² में) क्या है?
($\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग करें)

(D) $\frac{50600}{7}$ मीटर²

117. निम्नलिखित चार संख्यात्मक जोड़े दिए गए हैं। इनमें से तीन कुछ प्रकार से समान हैं लेकिन एक भिन्न है। उसका चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है।

(B) 26, 182

Gurukul Varanasi

118. नीचे दिए गए क्रम में से गलत संख्या की पहचान करें

987, 906, 842, 792, 757, 732, 716

(A) 792

Gurukul Taravastu

119. नीचे दिए गए कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष, तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है।

कथन : कुछ फ्लैट अपार्टमेंट हैं।

कोई अपार्टमेंट हॉल नहीं है।

निष्कर्ष : I : कम से कम कुछ हॉल नहीं है।

II : कोई अपार्टमेंट कमरा नहीं है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने:

(B) न तो निष्कर्ष I और न ही II अनुसरण करता है

120. निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है?

(B) सभा

Gurukul Varanasi

121. सर्वनाम के कितने मुख्य भेद होते हैं?

(A) 6

Gurukul Taravastu

122. निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है-

a. अधीन

b. पुरस्कार

c. महत्व


d. साशन

e. उपर्युक्त

नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए:

(B) केवल a, c और e

123. निम्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञानत कीजिए:



(D) 261

Gurukul Varanasi

124. यदि α और β एक समीकरण $3x^2 - 13x + 14 = 0$ के दो मूल हैं, तो $\frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta}$ का मान क्या है?

(B) $\frac{85}{42}$

125. करेवा निर्माण निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उपयोगी है? (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने:)

(D) जाफरान/केसर

Gurukul Varanasi

126. ब्रिटिश द्वारा अवध के विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?

(D) लॉर्ड डलहौजी

Gurukul Taravastu

127. भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है?

(A) अनुच्छेद 320

Gurukul Varanasi

128. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है?

(D) अनुच्छेद 164

Gurukul Varanasi

129. अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्य
निर्वाचन आयोग कौन थे?

(A) मधुकर गुप्ता

Gurukul Taravastava

130. 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है?

(C) संपत्ति का अधिकार

Gurukul Varanasi

131. किस तिथि को आर बी आई ने 2000रु के क्रेन्सी नोट के प्रसार को रोकने की घोषणा की थी। (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने:)

(A) मई 19, 2023

Gurukul Tarana

132. राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने:)

(C) 50%

Gurukul Tarun

133. किस योजना के तहत राजस्थान में सितम्बर 2022 तक 3.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं?

(C) प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY)

Gurukul Taravati

134. राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट
राजस्थान में कहां स्थापित किया जाना है?
(निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने:)

(D) जोधपुर

Gurukul Tarun

135. राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है?

(B) रामगढ़ बांध

Gurukul Varanasi

136. निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य है?

(B) मेरी बात सुनो।

Gurukul Taravastu

137. सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए-

सूची-I (वाक्यांश)

सूची-II (सार्थक शब्द)

a. आदि से अन्त तक

I. अनूप

b. जल से परिपूर्ण

II. आद्योपान्त

c. चोट खाया हुआ

III. उटज

d. तिनकों से बना घर

IV. आहत

नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उयुक्त उत्तर का चयन कीजिए:

(D) a-II, b-I, c-IV, d-III

138. 'तंग करना' इस अर्थ के लिए मुहावरें का प्रयोग होता है?

(B) नाच नचाना

Gurukul Varanasi

139. 'ज्ञापन' के लिए अंग्रेजी के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है?

(B) MEMORANDUM

Gurukul Taravastu

140. कार्यालयी पत्रों के अधोलेख में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है?

(A) आपका विश्वासी

Gurukul Taravastu

141. निम्नलिखित में से कौन से विपरीत गुणों को, मटर (गार्डन पी) पर मेंडेल द्वारा अपने संकरण प्रयोगों में उपयोग नहीं किया गया था?

(B) जड़ का आकार

Gurukul Taravati

142. निम्नलिखित में से कौन सा पारजीवी
(ट्रांसजेनिक) जंतु को उत्पन्न करने का कारण
नहीं है?

(D) कायिक संकर बनाने के लिए

Gurukul Tarangshala

143. निम्नलिखित में से कौन से पिरैमिड कभी भी उलटे नहीं होते हैं?

(E) ऊर्जा का पिरामिड

Gurukul Taravastu

144.



ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया में ग्लिसरोल है।

(D) ऋणात्मक उत्प्रेरक

145. निम्नलिखित में से कौन पानी में डूब
जाएगा?

(D) स्टेनलेस स्टील की गेंद

Gurukul Taravastava

146. निम्नलिखित में से कौन सा अधातु इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और जो विद्युत् का सुचालक भी है?

(A) ग्रेफाईट

Gurukul Taravasth

147. The accident victim..... by
the time they him to the
hospital.

(C) was dead, rushed

Gurukul Taranaagar

148. passive form

A thief stole my dog and brought back only when I offered 5000rs. reward for him.

(C) My dog was stolen and brought back only when a 5000rs. reward was offered.

149. Mr. Mehra called while you were out. He wants to make complaint about article in the paper. He was in very bad temper.

(A) A, a, the, a

150. I can't do this job alone. I need
..... to help me; in fact
will do, as I just need to
assist me.

(A) anybody, nobody, anyone